



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 1981/वैशाख 14, 1903
No. 97] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 1981/VAISAKHA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-83 ई.टी.सी. (पोएन)/81

नई दिल्ली, 4 मई, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय:—बैराइट्स की निर्यात नीति

मिसिल संख्या-6(6) 81-ई-2 से जारी.—1981-82 के लिए निर्यात नीति की क्रम
पृष्ठ सं. 7 पर दर्शाए गए नीति विवरण की सं. 1 के कालम 3 की क्रम सं. 45(7)
के सामने दर्शाई गई निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार
बैराइट्स लम्पस और पाउडर का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार नियम और
खान स्वामियों द्वारा उनके अपने उत्पादन के भीतर अनुमोदित है।

2. यह निश्चय किया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम/खान स्वामियों को 73/-यू. एम. डालर प्रति मी. टन जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधीन पांच प्लाई वाले क्राफ्ट पेपर बॉक्स पैकिंग में बैराइट्स के निर्यात की स्वीकृति दी जाए।

3. आगे यह निश्चय किया गया है कि 1981-82 की निर्यात नीति के नीति विवरण की क्रम सं. 45 (7) के सामने क्रम सं. -1 के कालम 3 में दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

“बैराइट्स लम्स और पाउडर ओ.सी.एम.ए./ए. पी. आई. ग्रेड (4.20 विशिष्ट गुरुत्व सहित) का निर्यात (1) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और (2) खान स्वामियों द्वारा उनके अपने उत्पादन की सीमा तक क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे निर्यात समय-समय पर घोषित न्यूनतम कीमत और शर्तों के अधीन होंगे।”

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 33-ETC(PN)/81

New Delhi, the 4th May, 1981

Export Trade Control

Subject : Export Policy of Barytes.

File No. 6(681-EIL).—Attention is invited to the export policy appearing against S. No. 45(vii) in Col. 3, in S. No. 1 of Policy Statement at page 17 of Export Policy Book 1981-82, according to which Barytes Lumps and powder is allowed for export by M.M.T.C. and Mine Owners within their own production.

2. It has been decided to allow M.M.T.C./Mine-owners to export Barytes Powder in five ply kraft paper bags packing subject to the floor price of US \$ 73/- per M.T. F.O.B.

3 It has further been decided to substitute the existing entry appearing in col. 3 in S. No. 1 against S. No. 45(vii) of the Policy Statement in the Export Policy Book, 1981-82, with the following :—

“Export of Barytes lumps and powder OCMA/API Grade (with 4.20 specific gravity) will be allowed by the regional licensing authorities by (i) M.M.T.C. and (ii) Mine Owners to the extent not exceeding their own production. Such exports will be subject to floor price and other conditions announced from time to time”.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports and Exports